

# हादरसा सोलोंथाइ-बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गथुम, आसाम

काहिलिपारा, गुवाहाटी - 781019

दानारि सोलोंथाइयारि फानजामुथि

आगष्ट 2021	सम	मंगल	बुध	बिस्थि	सुक्र	सुनि	रबि
	30 बन्द सान (बन्माहनि)	31 थाखो सान					1 बन्द सान
	2 थाखो सान	3 थाखो सान	4 थाखो सान	5 थाखो सान	6 थाखो सान	7 थाखो सान	8 बन्द सान
	9 थाखो सान	10 थाखो सान	11 थाखो सान	12 थाखो सान	13 थाखो सान	14 थाखो सान	15 बन्द सान आरो फालिथाइ सान (उदाँधि सान)
	16 थाखो सान	17 थाखो सान	18 थाखो सान	19 थाखो सान आरो खावसे बन्द सान (महरम)	20 थाखो सान	21 थाखो सान	22 बन्द सान
	23 थाखो सान	24 थाखो सान	25 थाखो सान	26 थाखो सान	27 बन्द सान (मापकदेवनि तिथि)	28 थाखो सान	29 बन्द सान (करम फुजा)

### गाहाय गुदि थाखो ( थाखो से निफ्राय बा सिम )

#### थाखो बादियै फरा राननाय

आयदा	सेथि	नैथि	थामथि	ब्रैथि	बाथि
बर' (राव-1)	हाथाङ-साजा रमाव थानि थु (कम-4)	विगिजि आरो थिफनय विचार फ्यालि (कम-4)	बिबी आरो फिसी (कम-4)	उखेनाय (कम-4)	फिर्यानि मेस (कम-4)
सानखान्थि	दाजावनाय (1-9 सिम) (कम-4)	51 निफ्राय 99 सिम अनजि मा गियान (कम-4)	अनविमनि सारखांग (501 निफ्राय 999 सिम) (कम-4)	रां आरो फेसा (कम-4)	धमखीलारि आरो नैजीलारि (कम-5)
इंराजी (राव-2)	My Family (Contd) (Lesson-2) Animal World (Lesson-3)	Traffic Lights (Lesson-3)	A Brave General (Lesson-3)	The Hidden Treasur (Lesson-4)	The Stork and the Fox (Lesson-4)
आवहावा फरायसनाय			दै (कम-5)	बार (कम-5)	सम्पद, सूरिखायि (कम-5)

थाखो सेनिफ्राय बासिम गाहायाव होनाय मावफारिखी फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि थाखो बादियै दाननि फराजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिना सर' खालामहो-

- सावसि आरो देहायारि सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि ।**
- गोलाउ बारनाय सोलोंगोन ।
  - जायगानि गेलेमु गेलेगोन ।
  - जानायनि सिगां आरो उनाव सोबोनजों आखाइ सुनाय राहा खालामगोन ।

- आरिमु आरो सिल्प सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि**
- लेखा बिलाइजों गाबगोनं सिखिरि थियारि खालामना थाखो ख'थानि इन्जुनि फारसे बाहागो साजायगोन ।
  - थाखो ख'थानि सिखाव एबा बायजोआव बायदि मुवाफोरनि महर, गाब बायदि नोजोर होनाय वेनि सावगारि आखिगोन ।



### मावफारि आरो फालिथाइ सान

15 आगष्ट : फरायसालिनि सिखलायाव हादरारि फिरफिला बिरहोगोन । फोरोंगिरि-फरायसा ज जानाँ उदाँधि सोमावसारनाय आरो उदाँधि साननि गोनाँथिखी बेखेवथिगोन ।

- उदाँधि सोमावसारनायनि लोब्बा थानाय सावगारि, सौलु, हादर अनफावरि मेथाइ बादाय लायनाय खुंगोन ।
- गासिबो हाबाफारि फोजोबना हायुडारि मेथाइ खनगोन ।

19 आगष्ट : सानफ्रोमबो फारिलाइनि गिबि मोनब्रै पिरियदाव फरा फोरोंगानै जिरायनायनि उनाव महरमनि थाखाय खावसे चुटी फोसाव ।



थाखो सान-	24
रबिबार-	5
गुबुन बन्द सान-	2
गासै सान-	31
(दाननि फालिथाइ सान -1)	

- फोरोंगिरिया मोनफ्रोमबो थाखोनि मोनफ्रोमबो आवदादिनि मिर्बिथिनय फोरोंनाय फिहाइ बादियै फोरोंनाय बिखान्थि सामलायनंगोन ।
  - जुनिवायै हानाय गथ'सानि थाखाय फोरोंगिरिया फराफोरखी बिखोरनि गोरोबनाय बादियै थियारि खालामना फोरोंगोन ।
  - न' एबा फरायसालि साखोन-सिखोन खालामना लाखिनायजों लोगोसे खाथिखाला ओन्सोल आरो सोरगिदि साखोन-सिखोन लाखिनायनि बिबान गुबुनजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो फरायसाफोराबो फालिगोन ।
  - लामायाव थाबावनाय एबा बारनायाव गावबो सांघ्रां जानावजों लोगोसे गथ'सा, बोराइ आरो जुनिवा जोथोन लानो गोनां सुबुनो हेफाजाव होनाया जौनि बिबान आरो मावनां ।
  - फरायसालिनि सावसि खाथिनि सोमोन्दो जोथोन लानो थाखाय फरायसा संसद एबा गीधुमनिफ्राय सासे एबा सासेनि बांसिन फरायसनि सोद्रोमा थिसन, जेराव फरायसालिनि साखोन सिखोना संरेखा जाना थायो ।
  - बे बिधिदाव फरायसा सोद्रोमाखी सम सम सोलाय-सोल' खालाम ।
- 

### जौगा गुदि थाखो ( थाखो द'निफ्राय दाइनसिम )

#### थाखो बादियै फरा राननाय

आयदा	द'थि	स्निथि	दाइनथि
बर' (राव-1)	खरी उदाँधि फाहाइ (कम-5)	फोरमायनिहा र्थथिनि जउन (कम-6)	वेराइ बिगियान फरायसनाय (कम-6)
सानखान्थि	आबुं अनविम (कम-4)	गोरी सम्मण्ड (कम-4)	खरि खादायनाय (कम-5)
इंराजी (राव-2)	Dhyan Chand (Lesson-3)	From the Diary of Anne Frank (Lesson-3)	Explore India: Quiz Time (Lesson-3)
बिगियान	मुक्फोरनि थोखायनाय (जुव खालामनय) (कम-5)	महारि आरो रथान (कम-4)	खामनाय आरो जर फलन (कम-4)
समाज बिगियान	भुवनि शिवा आरि धार (कम-2)	भुवनि शिवा आरि धार (कम-2)	भुवनि शिवा आरि धार (कम-2)
हिन्दी (राव-3)	लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले (कम-5)	जौना-बिलाना मत भूलना (कम-5)	जलारथ के किनारे कुहरी धी (कम-4)

थाखो द'निफ्राय दाइनसिम गाहायाव होनाय मावफारिखी फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि थाखो बादियै दाननि फराजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिना सर' खालामहो-

- हाबा सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि**
- गुदि मोनथाइनि सोमोन्दै स्ल'गान, पप्टर, फेप्टुन, बेनाय बायदि थियारि खालामगोन ।
  - फेसेवनाय हासार बानायनो सोलोंगोन ।

- सावसि आरो देहायारि सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि**
- सिनसि थोंगोर खालामनायै जिरायनो सोलोंगोन ।
  - जानायनि सिगां आरो उनाव साबोनजों आखाइ सुनाय राहा खालामगोन ।



● सोलोंथाइयारि फानजामुथि दान बादियै फरा हादरारि दानसोबो मोनफ्रोमबो खोनी मुनेन्थाइनि सोमोन्दो आवदादिनि फिहाइय फराफोरी फोरोंगिरिया फारि फाउ बादियै फोरोंगोन ।  
 ● आगष्ट दानसोबो बाबो धानि अनविम । जुदि बे बिहाइय फाउ बादियै फोरोंगिरिया फारि फाउ बादियै फोरोंगोन ।  
 ● फोरोंगिरिया फेब्रुवारी 12 खाला खानि बाबो जेप, 51मि आरो 81मि बाबोनि फरायसाफोरनि फावनाय सुने गोबे National Achievement Survey (NAS), 2021 नि फिवायारि आग चरि सोलोंथाइयारि फानजामुथि फाउ बादियै फोरोंगोन ।

# हादरसा सोलोंथाइ-बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गथुम, आसाम

काहिलिपारा, गुवाहाटी - 781019

दानारि सोलोंथाइयारि फानजामुथि

सेप्टेम्बर 2021	सम	मंगल	बुध	बिस्थि	सुक्र	सुनि	रबि
 <p>डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णण</p>			1 थाखो सान	2 थाखो सान	3 थाखो सान	4 थाखो सान	5 बन्द सान आरो फालिथाइ सान (फोरोंगिरि सान)
	6 थाखो सान	7 थाखो सान	8 बन्द सान (सोमोन्दो विधि) फालिथाइ सान (मुलुगनां लेखा सोमोन्दो सान)	9 थाखो सान	10 थाखो सान	11 थाखो सान	12 बन्द सान
	13 थाखो सान	14 थाखो सान	15 थाखो सान	16 थाखो सान	17 थाखो सान	18 थाखो सान	19 बन्द सान
	20 थाखो सान	21 थाखो सान आरो फालिथाइ सान (मुलुगनां गोजोन सान)	22 थाखो सान	23 थाखो सान	24 थाखो सान	25 थाखो सान	26 बन्द सान
	27 थाखो सान	28 थाखो सान	29 थाखो सान	30 थाखो सान			

### गाहाय गुदि थाखो ( थाखो से निफ्राय बा सिम )

#### थाखो बादियै फरा राननाय


आयदा	सेथि	नैथि	थामथि	ब्रैथि	बाथि
बर' (राव-1)	असे लोगो (फरा-5)	सरो गिराणि गयसा (फरा-6) मुकुरआ गेलेबाइ फुडल (फरा-7)	रेसुपिन लाववाम (फरा-5) दाउरानि जोमोम सर (फरा-6)	डे (फरा-5) आधि मोलाउ (फरा-4)	ललित कला रम ड फोष डायम (फरा-5) अखाफोरनि जोथि (फरा-6)
सानखान्थि	दान खनाय (फरा-5) 10 निफ्राय 20 मिस अनिगामनि सानखाया (फरा-6)	विन्थाइ (फरा-5) दाजावनाय (फरा-6)	दाजावनाय (फरा-5) लाउथाइ (फरा-6)	रेखन (फरा-5) सानखावनाय (फरा-6)	राननाय (फरा-5) बोखावनाय (फरा-6) दशमिक (फरा-6)
इराजी (राव-2)	Animal World (cntd) (Lesson-3)	Traffic lights (cntd) (Lesson-3) Keep Healthy (Lesson-4)	A glass of Lemonade (Lesson-4)	The Letter (Lesson-5)	Let's write a story (Lesson-5)
आवहावा फरायसनाय			जोनि फोरुओ (फरा-7) जोनि फरायसाफोरनि (फरा-8)	जिव आरो आबहावा (फरा-7) गुनुन गुनुन आबहावनि लाहाम (फरा-8)	आदारनि गोनधि (फरा-7) जिवखानावनि आदर (फरा-8)

थाखो सेनिफ्राय बासिम गाहायाव होनाय मावफारिखौ फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि थाखो बादियै दाननि फराजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिना सर' खालामहो-  
**सावस्रि आरो देहायारि सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि ।**

- बल खुबैनाय सर' खालामगोन ।
- जायगानि गेलेमु गेलेगोन ।
- जानायनि सिगं आरो उनाव साबोनजों आखाइ सुनाय राहा खालामगोन ।

**आरिमु आरो सिल्प सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि**

- बर' हांखो कार्ड, इराजी हांखो कार्ड, दाजाव हांखो गोनं सोदोव कार्ड बानायनो सोलोंगोन ।
- फरायबिजाबाव थानाय "उदासि सोमावसासानाय आसामनि बिफाव" मुनि रायथाइनि विधायाव फावथाइनि गांसे पान्दुलिपि थियारि खालामना फरायसाफोरनि जोहै फावथिना दिन्थिगोन ।



### मावफारि आरो फालिथाइ सान

5 सेप्टेम्बर : डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णणनि सावगारियाव विचार बाउगोन आरो बिथानि जिउ सानथौनि बागै सावरायगोन । फरायसानि दरि हरिमुवारि आफाद खुंगोन ।

8 सेप्टेम्बर: आगु फोसावनाय लेखा फुं आफादआव साइख'जानाय फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि सिगाडव सोलोंथाइ साननि गोनंथिनि सायाव सावरायगोन । बेनि अनगाबो फरायसाफोरा गावआरि आरो हान्जायारियै बानायनाय सोलोंथाइ आयदानि बायदि स्ल'गान प्लेकार्ड, फेदुन आरि दिन्थिगोन ।

21 सेप्टेम्बर: फुनि आफादआव सिगाडवनो थि खालामखानाय फरायसाफोरा समाजआव मुलुगनां गोजोननि गोनंथिनि सोमोन्दै सावरायगोन । गोजोन लाबोनो थाखाय खामानि मावलोनों समायखिरा बाणो थियारि खालामना समायखिरा लाहोगोन ।

अक्टोबर दानाव खुंनो गोनं नैथि जथाइ सुमोनथाइनि सौनाय बिलाइफोरखौ 24 सेप्टेम्बर खालारनि गेजेराव गाहाइ फोरोंगिरिनि आखाइयाव जमा होनांगोन ।

थाखो सान-	25
रबिबार-	4
गुनुन बन्द सान-	1
गासै सान-	30
(दाननि फालिथाइ सान - 3)	

- फोरोंगिरिया मोनफ्रोमबो थाखोन मोनफ्रोमबो आयदानि विविधियाव फोरोंनाय फिचाइ बादियै फोरोंनाय बिखान्थि सामलायनांगोन ।
- जुनियारै हानय गथ'सानि थाखाय फोरोंगिरिया फराफोरखौ बिसेरनि गोरोबनाय बादियै थियारि खालामना फोरोंगोन ।
- न' एबा फरायसासि साखोन-सिखोन खालामना लाखिनायजों लोगोसे खाबिखाला ओन्सोल आरो सोरगिदि साखोन-सिखोन लाखिनायनि बिबान गुनुनजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो फरायसाफोराबो फालिगोन ।
- लामायवा थाबावनाय एबा बारनायाव गावनो सांघां जानायजों लोगोसे गथ'सा, बोराइ आरो जुनिया जोथोन लानो गोनं सुबुंनो हेफाजाव होनाया जोनि बिबान आरो मावनां ।
- फरायसासिनि सावधि खान्थिनि सोमोन्दो जोथोन लानो थाखाय फरायसा संसद एबा गौधुमनिफ्राय सासे एबा सासेनि बासिन फरायसानि सोद्रेमा थिसन, जेराव फरायसासिनि साखोन सिखोनो संरेखा जाना बायो । बे बिधिजाव फरायसा सोद्रेमाबो सम सम सोलाय-सोल' खालाम ।



### जौगा गुदि थाखो ( द'निफ्राय थाखो दाइनसिम )

#### थाखो बादियै फरा राननाय

आयदा	द'थि	स्निथि	दाइनथि
बर' (राव-1)	लावखार मेघाड (फरा-7) सोरानि लामा (फरा-8)	मिसाहल सुबुंसा (फरा-8) बादोसा मंगलयड (फरा-9)	गुरेव कालिधरम ड्राम (फरा-8) गिनाय (फरा-9)
सानखान्थि	रर अनजिया (फरा-5) गुदि दायारफेर (फरा-6)	होकि अरो खया (फरा-5) अखायविषयम आरो बेनि फोरुओ (फरा-6)	बर्न आरो बोरुदा (फरा-6) फन आरो फरुदा (फरा-7)
इराजी (राव-2)	Uses of ICT (Lesson-4)	Kindness (Lesson-4)	Dockchory Learns about the Panchayat (Lesson-4)
बिगियान	जोनि सोरगिदि सोलावनाय (फरा-4) बिचनं लाइफोकोरखौ मिथिनि (फरा-7)	बार, वारहुंखा (फरा-8) डो (फरा-9)	सायनो अरो विचरिनि लोथिनि (फरा-8) विधिदु दयल ओ खबनि (फरा-9) विचरिनि आबहाव (फरा-9)
समाज बिगियान	जुवरि डायल (फरा-11) कोरनि कालिनि (फरा-11) विचरिनि वार (फरा-12)	वेनि अखाय (फरा-11) सुवुंनिये, कोरुओ अरो कोरुओनि (फरा-12) बिचरिनि अरो विचरिनि कोरुओनि (फरा-12)	फोथि (फरा-11) सुं सान कोरुओनी रेवरो (फरा-12) गो सेवनाय (फरा-12)
हिन्दी (राव-3)	गौव को रीर (फरा-11) हिंद देश के निकासी (फरा-11)	हर को जीव (फरा-11) अरुण के पार (फरा-11)	उरुते न कदम (फरा-11) भारतीय सेनान को एक इलाक (फरा-11)

थाखो द'निफ्राय दाइनसिम गाहायाव होनाय मावफारिखौ फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि थाखो बादियै दाननि फराजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिना सर' खालामहो-  
**हाबा सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि**

- लेखा बिलाइनि मुखा थियारि खालामना सोलोंनाय ख'ना साजायगोन ।
- बागानाव बेरा एबा जेवरा होनो सोलोंगोन ।

**सावस्रि आरो देहायारि सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि**

- आखाइ फारनैजों जान्जियाव हमनानै आधि थौंनैखौ खेवसे फुवारनानै खेवसे मोखाजों आरो खेवसे उनथिजाय हायलानाय सर' खालामगोन ।
- सिनस्रि थोंगोर खालामनानै मोनसे सिरियाव गसनानै आगानफा आगानफायै उनथिजाय फावसायनाय (सोलेरनि दिदोमथि रेखा खालामनानै) सर' खालामगोन ।



● सोरोधयारो फानजामुथिपुन दान बादिने फरा हानय दइलको फोरोंगिरिया सोमोन्दो मुनोपथाइनि आगोलनि अवरोबादिने विचरव फराफोरखौ फोरोंगिरिया फरनि खान्थि फोरोंगिरिगोन ।  
● सेप्टेम्बर दानय ललय बाको बाकनि अनजिया:  फराजाम निर । जुदि बे विचरव सव'पय सानिफुको रूप अणे अख फोरोंगिरिया फरनि खान्थि फोरोंगिरिया सान्थि खान्थि अणु कालामगोन ।  
● फोरोंगिरिया सेप्टेम्बर दानि 12 खाल खान्थि बाको 30प, 5प अणे 8प बाकनि फरायसाफोरनि बाखन खुंनो गेथे निथे National Achievement Survey (NAS), 2021 नि फिलारि अण गरी सोलेलय फिचरि सव'पय सोमोन्दो फोरोंगिरिया सान'खालामने हो ।